



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र 1936 (श0)
(सं0 पटना 773) पटना, सोमवार, 22 सितम्बर 2014

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग
(उत्पाद एवं मद्य निषेध)

सीमित निविदा आमंत्रण सूचना

(शुद्धि पत्र)

19 सितम्बर 2014

सं0 11/कोर्ट-10-06/2014-2818—1ली अप्रील, 2014 से 31 मार्च, 2019 तक देशी शराब के पेट बोतल में विनिर्माण कर BSCL को आपूर्ति करने के लिए (विभागीय सीमित निविदा आमंत्रण सूचना नोटिस-11/कोर्ट-10-06/2014-2776 दिनांक 16.09.2014 जो बिहार गजट के असाधारण अंक 762 दिनांक 17.09.2014 द्वारा प्रकाशित हैं, में निविदा के निम्नांकित शर्तों "सीलबंद लिफाफा केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेजे कि यह दिनांक 27.09.2014 को कार्यालय अवधि तक "उत्पाद आयुक्त, बिहार, प्रथम तल, विकास भवन सचिवालय, पटना" को प्राप्त हो जाय। इस तिथि के पश्चात या अन्य माध्यम (हाथोंहाथ/कुरियर/ई मेल आदि) से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायगा।" को विलोपित करते हुए उसके स्थान पर यह प्रख्यापित किया जाता है कि "सीलबंद लिफाफा हाथो हाथ आयुक्त उत्पाद के कार्यालय में दिनांक 27.09.2014 तक कार्यालय अवधि तक आयुक्त उत्पाद के कार्यालय, प्रथम तल, विकास भवन सचिवालय, पटना को प्राप्त हो जाय"।

2, पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या 11/उ0नी0 (बोतलबंदी)-01-12/2013-288 दिनांक 31.01.2014 को निर्गत एवं बिहार गजट असाधारण अंक दिनांक 03.02.2014 द्वारा प्रकाशित निविदा सूचना नोटिस की शर्त पूर्ववत लागू रहेंगे। तथा शर्त संख्या- 2(ख)(i) के अनुसार सीमित निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदादाताओं को '0039-राज्य उत्पाद शुल्क-देशी स्पिरिट भट्टी -स्पिरिट शुल्क" बजट शीर्ष के अधीन कोषागार चालान या आयुक्त

उत्पाद, बिहार के पदनाम से थातीकृत (**Pledged**) राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र / डिमाण्ड ड्राफ्ट के द्वारा जमानत राशि के रूप में रू0 1,00,00,000/- (एक करोड़ रुपये) की राशि जमा कर निविदा के साथ उपस्थापित करनी होगी। असफल निविदादाताओं को जमानत की राशि यथाशीघ्र वापस कर दी जायगी। निविदादाता को प्रक्षेत्र आवंटन निर्धारित दर पर किये जाने के उपरान्त उनके द्वारा इस दर पर आपूर्ति से इंकार करने पर उसकी जमानत राशि जप्त कर ली जाएगी तथा भविष्य के लिए उसे काली सूची में (**Black List**) में डाल दिया जायेगा।

अन्य शर्तें एवं बंधेज पूर्ववत् लागू रहेंगे।

आदेश से,
संजय कुमार सिंह,
सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 773-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>